



एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवोत्पन्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564



कंपनी सचिवालय
Company Secretariat
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33,
NHPC Office Complex, Sector-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) – 121003
Faridabad (Haryana)-121003
फोन/Phone: 0129-2588110, 2278018
ईमेल/Email: cs-co@nhpc.nic.in
companysecretary@nhpc.nic.in

संदर्भ सं./Ref. No. NH/CS/199

Corporate Relationship Department/ कॉर्पोरेट संबंध विभाग, M/s BSE Limited/ बीएसई लिमिटेड, Phiroze Jeejeebhoy Towers / फिरोज जीजीभोय टावर्स, Dalal Street, /दलाल स्ट्रीट, Mumbai/ मुंबई -400 001 Scrip Code: 533098	Listing Department/ लिस्टिंग विभाग, M/s National Stock Exchange of India Limited/ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, Exchange Plaza, / एक्सचेंज प्लाजा, Bandra Kurla Complex/ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, Bandra (E)/ बांद्रा (ई), Mumbai/ मुंबई - 400 051 Scrip Code: NHPC
--	--

ISIN No. INE848E01016

Sub: Publication in Newspapers regarding special window for transfer and dematerialization of physical shares

विषय: भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटीरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन

Sir/ महोदय,

In compliance to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated 30th January 2026, please find enclosed herewith copies of newspaper publication regarding special window for transfer and dematerialization of physical shares, published in the following newspapers on Thursday, 10 September, 2026:

- Business Standard (English- all editions)
- Business Standard (Hindi-Delhi NCR edition).

This is for your information and record.

सेबी परिपत्र संख्या एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/आई/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुपालन में, कृपया भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटीरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो के संबंध में गुरुवार, 10 सितम्बर, 2026 को निम्नलिखित समाचार पत्रों में नोटिस का संलग्न प्राप्त करें:

- बिज़नेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी- सभी संस्करण)
- बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी-दिल्ली एनसीआर संस्करण)।

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए हैं।

भवदीय

(रूपा देब)
कंपनी सचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार

हरित ऊर्जा का सशक्त आधार



www.nhpcindia.com



@nhpcltd



@NHPCIndiaLimited



nhpclimited



NHPC Limited



NHPC Limited

quick scroll

Amazon gets £11.65 billion bids for debut sterling bond

Amazon.com Inc. is expected to raise £4.25 billion (\$5.8 billion) from its debut sterling bond sale, increasing the size of the four-part deal even as orders from investors eased slightly. Bids stand at over £11.65 billion, down from over £12 billion earlier, according to a person familiar with the matter. Pricing had already been tightened to 53 basis points over UK gilts for the shortest three-year tranche and to 93 basis points for the longest, said the person, who asked not to be identified.

China’s DeepSeek taps CITIC Securities for domestic IPO

Chinese artificial intelligence startup DeepSeek has tapped China International Trust and Investment Corporation (CITIC) Securities to prepare for an initial public offering (IPO) on Shanghai’s tech-focused STAR Market, two people familiar with the matter said. The Hangzhou-based firm aims to begin the IPO process this year, the people said, speaking on condition of anonymity. DeepSeek’s engagement of

CITIC, which has not been reported so far, is an indication that the startup is moving along in its IPO plan. Firms seeking a mainland China listing typically appoint securities firms to conduct pre-listing tutoring before submitting an application. The timing of IPO, the amount DeepSeek could seek to raise, its target valuation have not been determined, the people said.

QNu Labs raises ₹200 cr in Series-A1 round

PEERZADA ABRAR Bengaluru, 9 September

QNu Labs, a leading deep-tech cybersecurity company building quantum-safe solutions, has raised ₹200 crore in a Series-A1 round led by the National Quantum Mission and Speciale Invest, with participation from Sony Innovation Fund, Gaja Capital and Artha Ventures, among other investors.

The round takes QNu Labs’ total capital raised to ₹375 crore, marking a significant milestone in its journey to build and scale India-born quantum-safe cybersecurity technology for global markets.

The fresh capital will be deployed to accelerate R&D, deepen QNu Labs’ technology leadership and scale up its sales and go-to-market capabilities across India and global markets. A part of the funding will be used as QNu Labs’ contribution towards the approved project funded under RDI to build the technology backbone of India’s Quantum Secure and Sensing Networks (IQSN).

The investment will enable the company to further extend its quantum-safe technology stack by expanding into quantum sensing and AI. It will also

help expand deployments across critical sectors and build the capabilities required to address the rapidly emerging global demand for quantum-safe migration.

Sunil Gupta, cofounder, QNu Labs, said India had moved early in the quantum era. He said the National Quantum Mission, through its IIT Madras hub, had laid the foundation and, with implementation timelines published in 2026 across sectors, quantum-safe technology was shifting from policy to commercial deployment.

“QNu Labs has spent over a decade building this stack and has already deployed across government, critical infrastructure and BFSI,” said Gupta. “Investment in indigenous capability now gives India a clear opportunity: secure its expanding digital infrastructure with sovereign technology that meets global standards and competes in global markets.”

The investment comes at a pivotal moment for quantum cybersecurity, as enterprises and governments worldwide prepare for the transition to quantum-safe infrastructure, and India’s National Quantum Mission is setting an aggressive timeline of 2029.

India’s fraud office recommends ‘detailed’ probe into Xiaomi’s biz in country

REUTERS 9 September

India’s Serious Fraud Office has recommended Xiaomi be investigated for alleged irregularities in its business model and compliance with foreign investment law, potentially strengthening scrutiny of the smartphone maker, a govern-

ment document shows. China’s Xiaomi was once India’s top-selling smartphone brand but has seen its market share dwindle amid intense competition from Apple and Samsung. It is also battling several tax demands and royalty payment disputes. The recommendation from India’s Serious Fraud Investiga-

PhonePe set to make global market foray with UAE

AJINKYA KAWALE Mumbai, 9 September

Fintech major and India’s largest Unified Payments Interface (UPI) app PhonePe is foraying into international markets. The company is launching its first local operations in United Arab Emirates (UAE), cofounder and Chief Executive Officer (CEO) Sameer Nigam said on Wednesday. He was speaking at the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai.

The Bengaluru-based fintech firm has acquired two licences in the West Asian country that would allow the firm to offer consumer payments instruments such as wallets, gift cards and also offer



“THE LICENCES THAT WE HAVE WILL ALLOW PHONEPE TO DO CONSUMER PAYMENTS, WALLETS, GIFT CARDS AND MERCHANT ACQUIRING”

Sameer Nigam Cofounder & CEO, PhonePe

structure to merchants. “Our first international licences are from the Central Bank of the UAE. So, PhonePe will be launching its operations locally in the UAE as our first foreign market,” Nigam said. Indian fintechs are expanding their presence globally, especially in markets such as South East Asia and West Asia. Fintech firm Paytm is expan-

ding to countries such as Indonesia and Luxembourg, along with an international arm Paytm Arab Payments in partnership with Abbar Global Opportunities Holdings. “UAE has their own domestic rail called Aani. Plus, UPI is already connected with their local network. The licences that we have will allow PhonePe to do consumer pay-

ments, wallets, gift cards and merchant acquiring,” Nigam told the media on the sidelines.

The launch of the payments and financial technology player’s services in UAE is expected to open up use cases such as remittances between the two countries. It can also facilitate transactions for UAE-registered users within the country.

“If you’re a UAE citizen, hopefully in the near future, you will be able to make payments on a UAE-based POS (point-of-sale) device. Plus, the ability to send money to India and back,” he explained.

UPI is already accepted in other countries such as France, Qatar, Bhutan, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, and Mauritius, with deployments underway in other regions.



Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurated the expo at the Global Fintech Fest 2026, at the Jio World Centre, in Mumbai on Wednesday

PHOTO: PTI

In next 10 years, India will lead in AI: Sarvam exec

Pratyush Kumar, the cofounder of Sarvam, said that India will lead in artificial intelligence (AI) over the next 10 years. He also said that the financial sector will be one of the core sectors to drive this demand and adoption.

Speaking at the Global Fintech Fest 2026, Kumar said: “While it is year four of ChatGPT launch, but this is year one of India building its own AI. India will lead in adoption and scale over the next decade”.

Kumar also added that while India will not only adopt AI at scale but at price points that is affordable for billion users. He also added that the country now has its own AI models, access to GPUs and expanding pool of talent.

He also said that the use cases of AI in India has gone up considerably. Citing Sarvam’s attempts of building a frontier AI model from scratch, he said that the company has come a long way.

OUR BUREAU

Ajit Mohan steps down as Snapchat CBO after four years, cites personal reason

AASHISH ARYAN New Delhi, 9 September

Snapchat’s chief business officer (CBO), Ajit Mohan, on Wednesday said he had decided to step down from his role after four years at the social media company.

Mohan said in a LinkedIn post that Ronan Harris, who serves as president of the Europe, Middle East and Asia markets, will replace him as CBO at Snap, the parent firm of Snaphchat. Mohan said his decision to step down was driven by his plans to return to India and



Ajit Mohan said he is planning to return to India

spend more time with his family. He will remain at Snap until the end of this calendar year.

“My reason for leaving is simple and personal. My family stayed back in Singapore, and for the last two years I have been doing a non-trivial commute between New York, LA [Los Angeles] and Singapore, with a few occasional stops in London, Dubai and Bangalore,” he said.

Mohan, who joined Snap from Facebook four years ago, was promoted to CBO in February last year. He had initially joined Snap as president for the Asia-Pacific region.

“When I joined, we set out to rebuild Snap’s advertising busi-

ness from the ground up. What that meant in practice: rewiring our ads platform for performance, making direct response the engine of the business, and proving to advertisers that a platform reaching nearly a billion users could deliver real, measurable outcomes. The progress that we have made in the last few years is massive,” Mohan said in the post.

Before his four-year stint at Snap, Mohan was vice-president and managing director of Facebook India. He had joined Facebook from Hotstar, where he was chief executive officer.

Personalisation led by AI to create room for new startups: Razorpay CEO

AJINKYA KAWALE Mumbai, 9 September

The use of artificial intelligence (AI) will lower the cost of personalisation within the financial technology sector opening up new market niches for upcoming startups, Harshil Mathur, cofounder and chief executive officer (CEO), Razorpay said on Monday.

Mathur explained that new market niches within the sector could open up for new players such as payments for GenZ users, wealth management for high net-worth (HNI) individuals, multi-lingual platforms, among others.

“AI allows you to personalise. So, you can create an app in 20 languages today on day one because AI allows you to do that. Earlier, it was a lot of engineering effort and cost to do that,” Mathur said. He was speaking at the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai.

Mathur explained that India’s dominance in the world’s digital payments space presented an opportunity to now expand to global markets, especially in regions such as South East Asia.

“If a company is successful in India, there is a massive opportunity. We are expanding to Malaysia, Singapore and multiple markets. If one has solved for so many use cases, built that complex



“IF A COMPANY IS SUCCESSFUL IN INDIA, THERE IS A MASSIVE OPPORTUNITY. WE ARE EXPANDING TO MALAYSIA, SINGAPORE AND MULTIPLE MARKETS”

Harshil Mathur Cofounder & CEO, Razorpay

depth of product that is required to serve the complexity of India, you are in the best place to serve...” he added.

India’s real-time payments rail Unified Payments Interface’s (UPI) model, which involves a public-private collaboration, was unique to the country, he said.

“Public-private collaboration, ...you’ll see that the regulators and policy makers set the base rail and the private players collaborate and build on top of it. I think that is very unique to India. I haven’t seen that in any part of the world,” he said.

Advertisement for PIB Insurance Brokers. The ad features the PIB logo and tagline "PROTECT YOUR BUSINESS WITH CONFIDENCE". It lists various insurance services including Liability & Financial Lines Insurance, Engineering & Industrial Risk Insurance, Property & Fire Insurance, Marine & Logistics Insurance, Employee Benefits & Group Insurance, Motor & Fleet Insurance, and Miscellaneous Insurance Solutions. It also includes contact information: info@pibinsurance.in and 9820006729.

Advertisement for NHPC Limited. The ad includes the NHPC logo and tagline "NHPC Limited (A Government of India Navratna Enterprise)". It provides contact information for the Registered Office and mentions a special window for transfer and dematerialisation of physical shares. It also includes a notice regarding the transfer of equity shares of the company to Investor Education and Protection Fund.

Advertisement for DABUR INDIA LIMITED. The ad includes the Dabur logo and tagline "DABUR INDIA LIMITED". It provides contact information for the Registered Office and mentions a notice regarding the transfer of equity shares of the company to Investor Education and Protection Fund.

Advertisement for MIDWEST ENERGY LIMITED. The ad includes the Midwest Energy logo and tagline "MIDWEST ENERGY LIMITED". It provides contact information for the Registered Office and mentions a notice regarding the 36th Annual General Meeting and E-Voting and Book Closure.

**पंजाब नैशनल बैंक**
पंजाब का बैंक
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

**punjab national bank**
the name you can BANK upon!

शा.कार्या. – एमपीसी अशोक विहार, कुलाभी हंहराज पब्लिक स्कूल के पास, पड़ली मंजिल, फेज-1, ब्लॉक-एच , अशोक विहार, नई दिल्ली-110052
ईमेल: clpc6349@pnb.bank.in

क्या सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
(सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
श्री.अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संघर्षों के निपटारे के लिए उपलब्ध और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत **पंजाब नेशनल बैंक** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए **दिनांक 06.08.2026** को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें **उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता मेसर आईरेकमे फार्मा एंड रिटेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशक/गारंटर/बंधककर्ता श्री विवेक राजपूत, पिता श्री रज्जीत सिंह; निदेशक/गारंटर श्री मोहित कुमार, पिता श्री नारांश ओझा; श्री रविंद्र गुप्ता, पिता श्री सुरेश कुमार गुप्ता और गारंटर श्री निवेश कुमार, पिता श्री बिमल कुमार शाही के गमायम से) को नोटिस में बताई गई राशि 06-08-2026 तक से 4,86,10,935.84 (चार करोड़ छियासठ लाख दस हजार नौ सौ पैंतीस रुपये और चौसीस पैसे)** इसके साथ ही आगे का ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि को नोडिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर पुनर्मुगतान करने को कहा गया।
उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं,अतः उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, निम्नलिखित **सम्पत्ति का 05 सितंबर 2026 को सांकेतिक कच्चा ले लिया गया है।**
विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर **05.06.2026 तक बकाया रु.4,86,10,935.84 की राशि के लिए, साथ ही उस पर गवियथ का ब्याज और खर्च ,पंजाब नेशनल बैंक, (सीओ)-एमपीसी अशोक विहार,एस्कोआल आईडी – 8348900** के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति संपत्तियों को नमाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (6) के प्रावधानों के तहत **उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं** का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पूर्ण पड़ली मंजिल, जिसका कुल कर्बई एरिया 2381 वर्ग फीट है (बिना छत के अधिकारों के)। इसमें आगे और पीछे की बालकनी का अधिकार, फिट्टर एरिया में दो कारों की पार्किंग का अधिकार, कोमल लिफ्ट का अधिकार और साइड सिडिंथों व आम रास्ते के इस्तेमाल का अधिकार शामिल है, साथ ही, जमीन में बिना डैटे आनुयातिक हिस्से का अधिकार भी शामिल है। यह संपत्ति प्लॉट नंबर 2758 पर बाई है, जिसका एरिया 443 वर्ग फुट (357.70 वर्ग मीटर) है। यह प्लॉट फरीदाबाद की 'ग्रीनफील्ड' नाम की रिहायशी कॉलोनी में खसरा सं 58/6 एवं 68/16 का भाग है, जो साराय ख्वाजा गाँव, राउडल-बराहवाली और ज़िला-फरीदाबाद, हरियाणा के राजस्व समूह के अंतर्गत आता है।
सोमार्थ रस प्रहार है:-
पूर्व- 30 फीट चौड़ी सड़क परिसर- प्लॉट नंबर 2748
उत्तर- प्लॉट नंबर 2757
दक्षिण- प्लॉट नंबर 2759

दिनांक : 05.08.2026
स्थान : दिल्ली

अधिकृत अधिकारी,
(पंजाब नेशनल बैंक)

**एन एच पी सी लिमिटेड**
(भात संरक्षक और एक नवतन्त्र उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा -121003
सीआइएन: L46101HR1975GOI032964
फोन : 0129-2588101/ 2588500
ईमेल: companysecretary@nhpc.nic.in

वेबसाइट: www.nhpcindia.com

सूचना
भौतिक श्रेयों के ट्रांसफर और डिमेटरिहाइजेशन हेतु विशेष विंडो

कृपया ध्यान दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/II/3750/2026 दिनांक 30.01.2026 (SEBI परिपत्र) के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड के उन भौतिक प्रतिभूतियों के ट्रांसफर डीड्स के पुनः-प्रस्तुतीकरण हेतु एक विशेष विंडो खोली गई है, जो 01 अप्रैल 2019 से पूर्व बचे/ खरीदे गए थे। यह विशेष विंडो 05.02.2026 से 04.02.2027 तक खुली रहेगी।

यह विशेष विंडो उन ट्रांसफर डीड के लिए उपलब्ध होगी जो 01 अप्रैल 2019 से पहले निष्पादित किए गए थे, जैसा कि नीचे दिए गए मॉड्रिक्स में दर्शाया गया है।

क्या 01 अप्रैल 2019 से पूर्व ट्रांसफर हेतु प्रस्तुत किया गया था?	पूरी प्रतिभूति प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	वर्तमान विंडो में प्रस्तुत करने के लिए पात्र?
नहीं (यह नया प्रस्तुतीकरण है)	हाँ	✓
हाँ (पहले अन्वीक्षण/वापस किया गया था)	हाँ	✓
हाँ	नहीं	X
नहीं	नहीं	X

नोट:-
1. केवल वही अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे जिनके साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, ट्रांसफर डीड और अन्य सहायक दस्तावेज संलग्न होंगे।
2. ट्रांसफर के लिए प्रतिभूतियों अनिवार्य रूप से डिमेटर मोड में ही ट्रांसफर को अंतिमि की जाएगी और ट्रांसफर के पंजीकरण की तिथि से 01 वर्ष की लॉक-इन अवधि में रहेगी।

जो निदेशक इस विशेष विंडो का लाभ लेना चाहते हैं वे SEBI परिपत्र में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरओए) मेसरस कैपिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट एनएचपीसी लिमिटेड), सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर सी, प्लॉट नंबर 31-32, फाइनर्नियल बिल्डिंग, नानाकमण्डा, सेंट्रलमालमल्ली, हैदराबाद रांग्रोड, तेलंगाना-500 032 को भेज सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु निदेशक उपरोक्त SEBI परिपत्र को <https://www.hnpcindia.com/welcome/page/442.html> पर देख सकते हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से:
हस्ता/-
(रूप देण)
कंपनी सचिव

दिनांक : 10.09.2026
स्थान : फरीदाबाद

नोट: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) /आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) से संपर्क कर अपने कर्बई की, बैंक विवरण, संचर्क विवरण और नानांकन को अपडेट करें।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसरस **मथूट फाईनान्स लि., पंजीकृत कार्यालय: एनएच बाईपास, पलरिवटोम कोच्चि-682028, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-4804000, 2396884, 2394712, (mail@mathootgroup.com, www.mathootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों **(31.08.2025 तक की अवधि के लिए NPA** खाते और **31.05.2026** की अवधि तक के **कम टंच/कम शुद्ध/अपयोज्य वजन कटौती** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेंगे। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।
GSTIN-06AABCT0343B122 (हरियाणा)
प्रथम नीलामी की तिथि एवं समय: 12.10.2026, 04:00 PM
द्वितीय नीलामी की तिथि एवं समय: 15.10.2026, 04:00 P.M
तृतीय नीलामी की तिथि एवं समय: 19.10.2026, 04:00 P.M
सोनीपट (0517): MDL-3249, 3286, MUL-9682, 9798, 9890, 10339, 10464, 10550, 10580, 10614, 10686, 10776, 10820, 10884, 10978, 11033, 11069, 11153, 11173, 11191, 11241, TMS-54, सोनीपट-सेक्टर 14 (1712): MDL-2066, MDL-2760, MUL-10165, 10578, 10743, 10998, 11204, 11248, 11260, 11356, मोहाना-(हरि) (2005): MDL-1260, 1449, 1489, MDS-176, MUL-5109, 5183, 5221, 5228, 5248, 5252, 5268, 5283, 5305, 5334, 5335, 5340, 5344, 5351, 5385, 5425, 5436, 5503, 5522, 5537, 5555, 5576, RGL-2300, 2363, 2364, 2368, 2543, 2589, 2629, 2644, 2726, 2734, 2750, सोनीपट माफ मंज्रा चौक (2166): MUL-8513, 9067, 9148, 9346, 9347, 9541, 9644, 9791, TMS-200, सोनीपट-गुडमर्जी (2445): MDL-1787, 1807, MUL-7930, 8525, 9470, 9511, 9717, 9743, 9802, 9880, 9885, 9928, 9957, 9980, 10146, गनौर-(हरि) (3854): MUL-7333, 7384, 7388, 7522, 7589, 7628, 7720, RGL-4159, खरखोडा (4618): MUL-2720, 2745, 2776, 2793, RGL-1857, 1955, 1957, SRS-61, 89
नीलामी के: पड़ली मंजिल, पवन मेगा मॉल, एचबीएफसी बैंक के सामने, सुभाष चौक, सोनीपट-131001
संबंधित शाखा सौर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए लोन खातों की नीलामी, ऊपर दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित नीलामी केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यदि निर्धारित प्रथम तिथि को नीलामियों सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होती हैं या पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में नीलामी (नीलामियों) का आयोजन /क्रमशः संचालन **द्वितीय नीलामी की तिथि एवं तृतीय नीलामी तिथि को, ऊपर उल्लिखित नीलामी केंद्रों** पर आयोजित की जाएगी/जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना जारी नहीं की जाएगी।

कोहली एचड सीजी एडवोकेट, डी-72, लोअर ग्राउंड प्लोर, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017
नोट: यदि नीलामी इसके बावजूद सफल/पूरी नहीं होती है, तो इसके बाद की तिथियों में उसी स्थान पर नीलामी जारी रहेगी। इस संबंध में कोई और सूचना नहीं दी जाएगी। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@mathootgroup.com या 7834886464, 7994452462 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

**FEDBANK**
FINANCIAL SERVICES LIMITED

फेडबैंक फाईनैशियल सर्विसेज लिमिटेड
यूनिट नं. 1101, 11वीं तल, सिगनस, प्लॉट नं. 71F, पवई, पासपोली, मुंबई-400087

मांग नोटिस

अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार (जिन्हें संयुक्त रूप से 'कर्जदार' कहा गया है) ने अपनी अचल संपत्ति (प्रतिभूति) को फेडबैंक फाईनैशियल सर्विसेज लिमिटेड (यहाँ आगे 'Fedbank' कहा गया है) के पास गिरवी रखा और ऋण लिया है। उक्त ऋण अर्पणक अर्थात (एनपीए) के रूप में स्वीकृत किया गया है क्योंकि कर्जदार की चर्चा कचुपाने में असफल हो गए हैं। इस संबंध में Fedbank ने विविध आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत संबंधित को तदनुसार नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी किया। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 की धारा 13(2) और नियम 3(1) के तहत एक एक्सीटरी के रूप में वे विवरण यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। आगेसे अनुरोध है कि इस नोटिस का प्रकाशन होने के 60 दिनों के अंदर मांग नोटिस में बताई गई चर्चा और साथ में लगने वाला ब्याज चुकता कर दें। (रसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी Fedbank के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम की धारा 13(4) और 14 के तहत उक्त संपत्ति पर उचित कार्रवाई करेंगे। ऋण संख्या, कर्जदार, धारा 13(2) के तहत भेजा गया मांग नोटिस, मॉनी गई चर्चा और अचल संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार / सह-कर्जदार संपत्ति आरक्षक जैसा भी मामला हो, के नाम	प्रथमापूर परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख और काल बकाया राशि
1	ऋण खाता संख्या- FEDMRTSL0554997 1. अरविंद कुमार (कर्जदार) 2. रविन कुमार (सह-कर्जदार) 3. कविता (सह-कर्जदार) 4. महेश चंद (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति एक आवासीय भूखंड जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.41 वर्ग मीटर, जिसका खसरा नंबर 1143 मिन. और 1144 मिन., ग्रामीण आवासीय क्षेत्र गाँव रसौली, तहसील मानवा, मेरठ जिला – 250106, उत्तर प्रदेश के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ— पूर्व: 20 गज, जिसके बाद रंजपाल का घर, पश्चिम: 20 गज, जिसके बाद रमेश का घर, उत्तर: 7.50 गज, जिसके बाद उदातल का घर, दक्षिण: 7.50 गज, जिसके बाद 8 फीट चौड़ी सड़क/मार्ग।	एनपीए की तारीख: 05.07.2026 मांग नोटिस की तारीख: 21.08.2026 रु. 1626443/- (छपरे सोलह लाख छब्बीस हजार चार सौ दैतालीस मात्र) दिनांक 21.08.2026 को
	ऋण खाता संख्या- FEDMRTSL0529899 1. अनिल कुमार (कर्जदार) 2. जयवती देवी (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति नगर निगम संख्या 226 का भाग, क्षेत्रफल 93.55 वर्ग गज यानी 78.22 वर्ग मीटर, ग्राम कंचनपुर चाली, मेरठ-250103 के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ— पूर्व में: लगभग 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में: अशोक कुमार की संपत्ति का शेष भाग, उत्तर में: नवाब आदि और आरिफ आदि का घर, दक्षिण में: 10 फीट चौड़ा रास्ता	एनपीए की तारीख: 06.03.2026 मांग नोटिस की तारीख: 22.08.2026 रु. 1606432/- (छपरे सोलह लाख पित्तनस हजार पाँच सौ सैतीस मात्र) दिनांक 21.08.2026 को
3	ऋण खाता संख्या-FEDDLHLP0550983 1. मोहपट्टा एरियाधर (कर्जदार) 2. चोपड़ा कृष्ण (सह-कर्जदार) 3. सुरेश्वर कुमार मोहपा (सह-कर्जदार) 4. लक्ष्मी लक्ष्मी (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति निर्मित दुकान निजी नं. 1, भूतल पर बिना छत/टेरेस अधिकार, साइज माप (6.9 फीट x 10 फीट), और निर्मित संपत्ति नंबर डब्ल्यूजेड-37, जिसका प्लॉट नंबर 105-ए, खसरा नंबर 0/288/1/1 गं से, गाँव नंगली जालिव के क्षेत्र में, कृष्णा पुरी नाम से ज्ञात कॉलोनी, गली नंबर 10, नई दिल्ली-110018 के समस्त भाग व खंड।	एनपीए की तारीख: 04.09.2025 मांग नोटिस की तारीख: 24.08.2026 रु. 2005349/- (छपरे बीस लाख बीस हजार तीन सौ पचास मात्र) दिनांक 21.08.2026 को
4	ऋण खाता संख्या-FEDMNSTL0549513 1. राहुल बंसल (कर्जदार) 2. रणू बंसल (सह-कर्जदार) 3. सुशील बंसल (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति, आवासीय, पश्चिम दिशा की ओर मुख वाला मकान, नगर पालिका नंबर 57/1, क्षेत्रफल 81.09 वर्ग मीटर यानी 96.99 वर्ग गज, मोहल्ला कृष्णगुप्ती दक्षिणी, मुजफ्फरनगर, बरेल, परगना, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 और सभी निर्माण एवं आंगन के समस्त भाग व खंड। जिसका और और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व- राजपूत का मकान, पश्चिम— रास्ता गैली 10 फीट चौड़ी और अन्य का घर, उत्तर— सुरेश चंद का घर, दक्षिण— आनंद स्वरूप का घर	एनपीए की तारीख: 04.08.2026 मांग नोटिस की तारीख: 19.08.2026 रु. 1627446/- (छपरे सोलह लाख सत्ताईस हजार चार सौ डियालीस मात्र) दिनांक 17.08.2026 को
5	ऋण खाता संख्या-FEDNOILAP0550099 1. रसू श्री (कर्जदार) अपने सभी कार्यों परामर्शकारियों के गमायम से	बंधक संपत्ति, खाता संख्या 4612/5303, नगरपालिका नंबर 142, किस्ती नंबर 12/2/1(1-19), 19/3(8-0), वाका मौजा जालिव, रुई बरली सरलागढ़, नगर परिषद की हद में, पलवल-121102, हरियाणा के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ— पूर्व- सुरेश्वर की संपत्ति, पश्चिम— राजेंद्र की संपत्ति, उत्तर— सविंद रोड, दक्षिण- माया की संपत्ति	एनपीए की तारीख: 04.08.2026 मांग नोटिस की तारीख: 18.08.2026 रु. 1778837/- (छपरे सत्रह लाख अठ्ठतरा हजार पाँच सौ सैतीस मात्र) दिनांक 17.08.2026 को
6	ऋण खाता संख्या-FEDHRSSTL0544853 1. प्रदीप कुमार (कर्जदार) 2. सुनील कुमार (सह-कर्जदार) 3. सीमा देवी (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति आराजी खेवत नंबर 2238 (मिन 2238/3) खसरा नंबर 279/10/2(4-0), 11(8-0) कुल 12 कनाल 0 माराला 5/23 भाग में, कुल 12 कनाल 0 माराला 5/240 भाग में बंकरदार 0 कनाल 5 माराला वित्तीय किया गया, वाका मौजा तोशाम, सिवाली-127040, हरियाणा के समस्त भाग व खंड।	एनपीए की तारीख: 04.08.2026 मांग नोटिस की तारीख: 17.08.2026 रु. 1728411/- (छपरे सत्रह लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ इक्तालीस मात्र) दिनांक 17.08.2026 को
7	ऋण खाता संख्या-FEDDLHLP0519283 1. सतेज कुमार (कर्जदार) 2. मन्ना भगना (सह-कर्जदार) 3. जनीता लाल (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति, संपत्ति संख्या 1/2305-ए, माप 20.90 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 147 में से, गाँव चंद्रबोली उर्फ शाहदारा, गली नंबर 8, राम नगर एकाटेनगर, इलाका शाहदारा, दिल्ली-110032, दिल्ली के समस्त भाग व खंड।	एनपीए की तारीख: 04.02.2025 मांग नोटिस की तारीख: 17.08.2026 रु. 1802289/- (छपरे सोलह लाख दो हजार दो सौ पचास मात्र) दिनांक 17.08.2026 को
8	ऋण खाता संख्या-FEDNOILAP0521681 1. श्री रावे टेलीकॉम (कर्जदार) 2. सीरस जैन (सह-कर्जदार) 3. चमन देवी (सह-कर्जदार)	बंधक संपत्ति आवासीय प्लॉट 130 वर्ग गज या 108.69 वर्ग मीटर खसरा नंबर 299 में से, वाका गाँव, मोहम्मदपुर, दर्वाद परगना, मोदीनगर, गाजियाबाद-201206, उत्तर प्रदेश के समस्त भाग व खंड।	एनपीए की तारीख: 03.08.2025 मांग नोटिस की तारीख: 17.08.2026 रु. 2073464/- (छपरे बीस लाख छहतर हजार चार सौ चौरासी मात्र) दिनांक 17.08.2026 को

कर्जदार(ओं) को एतद्वारा मांग नोटिस(ओं) का अनुपालन करने और इन्हें उल्लिखित मांग संपत्ति का भुगतान की बसुकी होने की तारीख तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, वापस प्रभारों, लागत और व्ययों आदि सहित इस प्रकाराने तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की सलाह दी जाती है। कर्जदार(ओं) कृपया नोट करें कि Fedbank प्रथमापूर ऋणदाता है और कर्जदार(ओं) द्वारा दी गई ऋण सुविधा कर्जदार(ओं) द्वारा बंधक प्रथमापूर परिसंपत्तियों(ओं) अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध प्रथमापूर ऋण है। कर्जदार(ओं) द्वारा निष्पत्ति अवधि में उनकी देयताओं के पूर्ण रूकण पूरी नहीं होने की अस्थिति में किसी द्वारा हस्ताक्षर की नहीं बल्कि अधिनियम और विनियमों के तहत उपलब्ध अन्य किसी उपाचार के उपयोग सहित प्रथमापूर परिसंपत्ति(ओं) का प्रभार लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने और भुगतान की बसुकी के लिए Fedbank अधिकृत होगा।

राशि या हस्ताक्षर अधिकार के प्रभार से पूर्व प्रथमापूर परिसंपत्ति(ओं) को कुके और/या सील करने के लिए भी Fedbank शक्ति प्राप्त है। प्रथमापूर परिसंपत्ति(ओं) की विक्री के बाद, Fedbank को भुगतान देयता को पूरा करने के लिए बंधक संपत्तियों का मूल्य अपेक्षाएं होने की अस्थिति में कम्पनी द्वारा की बसुकी के लिए विक्री कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। Fedbank के पास है। यह उपचार अंतर्गत किसी हित के तहत Fedbank के पास उपलब्ध अन्य सभी उपाचार के अधिनियम और विनियमों के तहत उपलब्ध अन्य किसी उपाचार के उपयोग सहित प्रथमापूर परिसंपत्ति(ओं) को मूल्य करने के लिए उपलब्ध समूह में अधिनियम में अधिनियम की धारा 13(4) के प्रभावशाली और साथ ही अधिनियम की धारा 13(13) में कर्जदार(ओं) का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें Fedbank की लिखित पूर्व सत्यापन के बिना किसी प्रथमापूर परिसंपत्ति(ओं) का निपटारा या लेन-देन करने या विक्री, पट्टे या अन्य (व्यावसाय के सामान्य तर्ज के स्तर) के तहत हस्ताक्षर करने से कर्जदार(ओं) अवरुद्ध/निषिद्ध है और उपर्युक्त का गैर-अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार(ओं), यदि उन्हें ऐसा इच्छित हो, किसी भी कार्य दिरस को सामान्य कार्यालयीन अवधि में अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 10.09.2026 **स्थान: दिल्ली एनसीआर**

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) – फेडबैंक फाईनैशियल सर्विसेज लि. (प्राधिकृत अधिकारी)

**केनरा बैंक**
भारत सरकार का उद्यम

**Canara Bank**
A Government of India Undertaking

**संघटिक Syndicate**

ए. आर. एम. शाखा आगरा

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(यों)/जमानकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कच्चा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटरों के नाम व पते	बकाया राशि मांग सूचनानुसार	सम्पत्तियों का विवरण	कच्चे का प्रकार	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि 10%
क्र. सं. 1 से 16 के लिए ई-ऑक्शन का दिनांक व समय : 28.09.2026 सुबह: 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक) एवं धराहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि: 27.09.2026 सायं 05:00 बजे तक					
1.	ऋणी- 1. मैसर्स आरिा इंडस्ट्रीज प्रोप.- अरिशा खान, 2. अरिशा खान 37वीं खसरा नं. 3, नरसरी बेगम पत्नी नजीम, सभी का पता- इस्तामबाद गाँव हसनगढ़ खुर्ज, बुन्दरहा बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 07.09.2026	35,94,530/- मांग सूचना दिनांक 26.09.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्च (पटवें यदि कोई बसूली हुई हो तो)	प्लॉट पर एक आवासीय मकान स्थित ग्राम हसनगढ़, कस्बा व तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर, एरिया- 79.50 वर्ग मीटर, सम्पत्ति नरसरी बेगम पत्नी नजीम के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- रास्ता 12 फीट चौड़ा, पश्चिम- समीर खान का मकान, उत्तर- रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- गफनार सैकी का मकान	 संपत्ति विवरण	9,50,000/- 95,000/-
2.	ऋणी- 1. मैसर्स शोला ऑयल इंडस्ट्रीज, पता- प्लॉट संख्या 37वीं खसरा नं. 123 यू सुरक्षा बल फौज कार्लोनी व्वाल्डिय रोड, आगरा, 2. श्री जय प्रकाश बंसल पुत्र श्री ग्या प्रसाद बंसल, पता- एच 62 रीको इंडस्ट्रियल एरिया ऑडेला रोड बीलपुर, बाड़ी बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 07.09.2026	92,58,035.65 मांग सूचना दिनांक 29.12.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्च (पटवें यदि कोई बसूली हुई हो तो)	सांम्यिक बंधक संपत्ति स्थित प्लॉट नंबर H-62 RAIICO इंडस्ट्रियल एरिया ऑडेला रोड, बीलपुर (राजस्थान), एरिया- 700.00 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री जय प्रकाश बंसल पुत्र श्री ग्या प्रसाद बंसल के नाम, चौहद्दी: पूर्व- अन्य का संपत्ति, पश्चिम: 18 मी- चौड़ी RAIICO रोड, उत्तर: प्लॉर मिल, दक्षिण: अन्य का प्लॉट	 संपत्ति विवरण	38,10,000/- 3,81,000/-
3.	ऋणी- मैसर्स अट्रुम पब्लिक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, प्रो- परवेज मलिक पुत्र नसरुद्दीन, दोनों का पता- 29/44 माल का बाजार आगरा, गारंटर- श्री महेश मलिक पुत्र रामसुंदरी, पता- नं. 29/48 माल का बाजार, आगरा जिल्ला आगरा बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 07.09.2026	53,44,861.39 मांग सूचना दिनांक 30.06.2023 तक + ब्याज व अन्य खर्च (पटवें यदि कोई बसूली हुई हो तो)	सांम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति प.ए.एन. संख्या 29/46, संपत्ति नं. 3836 (नई) एवं 3338 (पुरानी) स्थित माल का बाजार, ब्लॉक 29, छाता बाई तहसील एवं जिला आगरा, एरिया- 259.77 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री परवेज मलिक पुत्र स्व. श्री नसरुद्दीन के नाम, चौहद्दी: पूर्व- अन्य का संपत्ति, पश्चिम- संपत्ति हाजी आरिफ, उत्तर- अन्य संपत्ति, दक्षिण- माल का बाजार रोड	 संपत्ति विवरण	1,11,15,000/- 11,11,000/-
4.	ऋणी- मैसर्स श्री राम इंटरप्राइजेज, प्रोप.- श्रीमती नेहा सक्सेना पत्नी श्री मोहित सक्सेना, गारंटर- 1. श्री हेमन्त सक्सेना पुत्र महवीर प्रसाद, सभी का पता- निवट शिवम पब्लिक स्कूल, 107 बुर्ज उम्मान अहोड़ापुड़ा खुर्ज, बुलन्दशहर, 2. श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री बॉन्ड सक्सेना, पता- बरार मोड़ (सिम्हवादन, अहोड़ापुड़ा खुर्ज, बुलंदशहर बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 07.09.2026	34,71,422.83 मांग सूचना दिनांक 02.12.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्च (पटवें यदि कोई बसूली हुई हो तो)	मकान संख्या 113, मोहल्ला बुर्ज उम्मानाऊ खुर्ज, सुभाष रोड, परगना एवं तहसील खुर्जा एवं जिला बुलंदशहर, श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व. श्री बॉन्ड कुमार सक्सेना के नाम पर, प्लॉट 30.71 वर्ग मीटर (36.71 वर्ग गज) कुल कवर्ड एरिया (GF+FF+SC) 92.13 वर्ग मीटर है। पूर्व- अन्य का संपत्ति, पश्चिम गली 05 फीट चौड़ी, उत्		